

## अथर्व के पत्र

1. दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने (✓) का निशान लगाएं।

(क) अथर्व अपने मम्मी-पापा के साथ कहां रहते थे ?

(क) पटना

(ख) बिहार

(ग) दिल्ली (✓)

(ख) वह अपनी हर छोटी-बड़ी बात पत्र लिखकर किसको बताता है?

(क) नानीजी

(ख) दादाजी

(ग) नानाजी (✓)

(ग) नानाजी कहां रहते थे ?

(क) गंगापुर

(ख) सोनपुर

(ग) कानपुर (✓)

घ. बच्चे जवाहर लाल नेहरू को प्यार से क्या कहते थे ?

(क) पापा

(ख) नाना

(ग) चाचा नेहरू (✓)

ङ. अथर्व अपने नानाजी के साथ कहां घूमने गए थे ?

(क) संजय पार्क

(ख) रॉक गार्डन

(ग) मुस्कान सदन (✓)

2. दिए गए शब्दों में से शब्द छांट कर लिखें , जिनसे काम के होने या करने का पता चलता है ।

निकलना, अथर्व , पत्र बहना, नानाजी, उठना, रोज , खेलना, हम तुम, खाना, लिखना, जोया ।

उत्तर- उठना, खेलना, खाना, लिखना, निकलना ।

3. दिए गए चित्र में सभी बच्चे अलग-अलग काम पर आधारित वाक्य बनाएं । प्रत्येक काम के नीचे रेखा भी खींचे ।

उत्तर- (क) बच्चे केक **खा** रहे हैं ।

(ख) बच्चे फुटबॉल **खेल** रहे हैं ।

(ग) पौधे में पानी **डाल** रहे हैं ।

(घ) बच्चे गाना **गा** रहे हैं ।

(ङ) बच्चे उपहार **दे** रहे हैं ।

4. प्रश्नों के उत्तर-

(क) बाल दिवस कब मनाया जाता है? और क्यों?

उत्तर -बाल दिवस 14 नम्बर को चाचा नेहरू के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है ।

(ख) अथर्व ने नानाजी को कितने पत्र लिखे और क्यों ?

उत्तर –अथर्व ने नानाजी को दो पत्र

लिखे । और उन्होंने बतलाया है। कि इस बार हमारे स्कूल में बाल दिवस कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा । मैं और मेरे दोस्त भी कुछ अलग करना चाहते हैं ।हम

क्या कर सकते हैं।

(घ) बाल दिवस पर आप क्या अलग करना चाहोगे ?

उत्तर- बाल दिवस पर आप नाच गान भी कर सकते हो । चाचा नेहरू भी बन सकते हो । अखबार

पेपर से छोटे-छोटे फूल भी बना सकते हो ।तरह -तरह के खेल -खेल सकते हो ।

(ङ.) अथर्व की ओर से नानाजी को पत्र लिखकर बताएं कि उन्हें नानाजी के लिए क्या उपहार देना चाहिए ?

उत्तर- 21/11/2020

प्यारे नानाजी,

प्रणाम ।

आप कैसे हैं ? नानीजी कैसी है? नानीजी का जन्म दिन तो ,मैं भूल

ही गया था । नानीजी को मेरी , ओर से बधाई दे दीजिएगा । इस बार नानीजी को ,ऐसा उपहार दीजिएगा। आप अपने हाथ से बनाया हुआ उपहार दीजिएगा ।

नानाजी आप पेपर से सुंदर-सुंदर,

काट्ट और फूल बना कर दीजिएगा ,

और एक अपने हाथ से बनाया

हुआ , सुन्दर गुलदस्ता ,भी दीजिएगा । साथ में एक मिठाई का डब्बा, भी दीजिएगा ।वह खुश हो जाएगी ।

आपका,

अथर्व